



आईटीआई लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

प्रेस विज्ञप्ति

आईटीआई लिमिटेड ने नई पीढ़ी के वायरलेस तकनीक के लिए टेक महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।

बेंगलूरु, 26 जून 2020. दूरसंचार के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विनिर्माण दूरसंचार और रक्षा उपकरण की पीएसयू, आईटीआई लिमिटेड और टेक महिंद्रा ने 4 जी और 5 जी स्मार्ट नेटवर्क, स्मार्ट सिटीज और हेल्थ केयर सेवाओं के क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया ।

भारत में आगामी 4 जी और 5 जी के अवसरों के लिए आईटीआई और टेक महिंद्रा इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत "मेक इन इंडिया" स्टैक बनाने के लिए सहयोग करेंगे । सरकार की आत्म निर्भर भारत की पहल के अनुरूप, आईटीआई लिमिटेड विनिर्माण में सात दशकों से अधिक के अनुभव के साथ 4 जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क और संबंधित उपकरणों(जो कि 5जी रुप में अपग्रेडेबल हैं) का उत्पादन करेगी । सॉफ्टवेयर आईपी, कार्यान्वयन और एकीकरण सेवाएं, संचालन और रखरखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए टेक महिंद्रा जिम्मेदार होगा । यह साझेदारी संयुक्त रूप से एक फ्रेमवर्क बनाने का इरादा रखती है जो देश में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आगामी वायरलेस प्रौद्योगिकियों के लिए समाधान प्रदान करेगा और विश्व स्तर पर व्यापार के अवसरों को भी संबोधित करेगा ।

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री आर.एम अग्रवाल ने कहा कि इस पहल के द्वारा "अगली पीढ़ी के वायरलेस स्टैक बनाने के लिए आईटीआई और टेक महिंद्रा के प्रस्ताव को समन्वय करके स्थानीय क्षमता का निर्माण करना है, जो भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा । दूरसंचार उपकरण बनाने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं और क्षमताओं के साथ आईटीआई तथा टेक महिंद्रा की सॉफ्टवेयर और वायरलेस तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न संयंत्रों में इनोडबी और 5जी एनआर उत्पादों के निर्माण की योजना बना रहा है । यह साझेदारी न केवल विदेशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करने में

मदद करेगी, बल्कि रक्षा संचार के लिए एक रणनीतिक नेटवर्क बनाने में व्यवसायों को भी संबोधित करेगी । इस साझेदारी के माध्यम से हम खुद को भारत सरकार के आत्म निर्भर भारत की पहल के लिए प्रतिबद्ध करते हैं ।

आईटीआई के साथ साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए श्री सुजीत बक्सी, टेक महिंद्रा के प्रमुख एपीएसी व्यापार और कॉर्पोरेट मामले के अध्यक्ष ने कहा कि, "टेक महिंद्रा अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकियों और सॉफ्टवेयर क्षमताओं को लाएगा और आईटीआई अपनी विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं और विशेषज्ञता का उपयोग अगली पीढ़ियों के लिए वायरलेस समाधान बनाने के लिए उपयोग करेगा । हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में इस महत्वपूर्ण पहल में आईटीआई के साथ साझेदारी करके खुश हैं ।